



## I B Patel English School (Primary)

2020 -2021

Class - 6

Subject – HINDI

Chapter : 1 EXERCISE

### दयालु शिकारी (चित्रपाठ )

#### Q 1 अभ्यास

1. इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है ?
2. आपने किन-किन पशुओं को देखा है ?
3. जंगल में कौन -कौन से जानवर देखने को मिलते हैं ?
4. चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए ।
5. चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए ।

#### Q 2 निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है ?
2. हिरनी जंगल में क्या-क्या खाती होगी ?
3. हिरनी देखने में कैसी है ?
4. शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था ?
5. गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया ?
6. हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा ?
7. शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया ? क्यों ?
8. शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया ? क्यों ?

#### Q 3 वर्ण के आधार पर शब्द बनाइए :

1. ट , ड , म , भ

### स्वाध्याय

- चित्र कहानी निचे दी गई लिंक से सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :



Tap on the Link for video : <https://www.youtube.com/watch?v=6S5g02BW39I>

• निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए :


1. कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे ?
2. कछुआ कहाँ रहता था ?
3. कछुए का स्वभाव कैसा था ?
4. हंसो ने क्या युक्ति सोची ?
5. रास्ते में क्या आया ?
6. अंत में कछुए के साथ क्या हुआ ?

• "प्यासा कौआ " कहानी बनाकर लिखिए :



Tap on the Link for video : <https://youtu.be/6qxSstDIhlc>

• चित्र देखकर दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर कहानी पूर्ण कीजिए :



- कौआ पुड़ी लेकर दूर एक वृक्ष की डाली पर बैठ गया और पुड़ी खाने लगा -
- लोमड़ी ने कौए की आवाज की प्रशंसा करना शुरू किया -
- कौआ लोमड़ी की चाल समझ गया की मेरी पुड़ी छिनने के लिए ही लोमड़ी मेरी प्रशंसा कर रही है
- अपनी चाल में असफल होने का अहसास होते ही लोमड़ी निराश होकर वहाँ से चली गयी
- लोमड़ी कौए से पुड़ी छिनने की तरकीब सोचने लगी -
- कौए ने अपने मुँह की पुड़ी पैर में दबाई और फिर का...का.. करके गाने लगा -

निचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए :

दयालु

बहुत

स्वस्थ

खुश

जन्म

बुराई

निचे दिए गए वाक्यों में जो 'संज्ञा' है, उन्हें रेखांकित कीजिए :

1. पूजन की परीक्षा पाँच बजे तक चलनेवाली थी ।
2. सब अंबाजी जा रहे थे ।
3. गुलाब का फूल मुझे पसंद है ।
4. हिमालय ली चढ़ाई बहुत कठिन थी ।
5. आज बिल्ली सारा दूध पी गई ।

Q 1

**उत्तर**

1. इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है ।
2. मैंने इन पशुओं को देखा है - गाय , बैल , भैंस , बकरी, घोड़ा, हाथी , कुत्ता , बिल्ली और गधा ।
3. जंगल में शेर , बाघ , हाथी , हिरनी , भालू , लोमड़ी, खरगोश , बंदर अदि जानवर देखने को मिलते हैं ।
4. शिकारी , दयालु, हिरनी , जंगल , बंदूक , निशाना , गोली, टाँग , शावक, पशु , अस्पताल ।
5. दयालु - माही दयालु लड़की है ।  
शिकारी - राजा अच्छा शिकारी था ।

Q 2

1. पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है ।
2. हिरनी जंगल में घास और पेड़ -पौधे के पत्ते खाती होगी ।
3. हिरनी देखने में मोटी - ताजी है ।
4. शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था ।
5. गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया ।
6. हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा की उसकी टाँग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है ।

7. शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया, क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था ।
8. शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दूःख हुआ था ।

Q.3

1. ट - टका, टमटम, टकसाल, टखना
2. ड - डगमग, डकैती, डकार, डग
3. म - मकड़ी, मकर, मक्षिका, मधुर
4. भ - भगवा, भगदड़, भगत, भगौड़

### बातूनी कछुआ

1. हंस कछुए के मित्र थे ।
2. कछुआ तालाब में रहता था ।
3. कछुए का स्वभाव बातूनी था ।
4. हंसो ने लकड़ी का एक-एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ने की और बिच का भाग कछुए को मुँह से पकड़ने की युक्ति सोची ।
5. रास्ते में गाँव आया ।
6. अंत में कछुए के मुँह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया ।

### कौआ और लोमड़ी

- कौआ पुड़ी लेकर दूर एक वृक्ष की डाली पर बैठ गया और पुड़ी खाने लगा 1
- लोमड़ी ने कौए की आवाज की प्रशंसा करना शुरू किया - 3
- कौआ लोमड़ी की चाल समझ गया की मेरी पुड़ी छिनने के लिए ही लोमड़ी मेरी प्रशंसा कर रही 4
- 
- अपनी चाल में असफल होने का अहसास होते ही लोमड़ी निराश होकर वहाँ से चली गयी 6
- लोमड़ी कौए से पुड़ी छिनने की तरकीब सोचने लगी 2
- कौए ने अपने मुँह की पुड़ी पैर में दबाई और फिर का...का.. करके गाने लगा 5

### विरोधी शब्द

1. दयालु × निदेयी
2. बहुत × थोड़ा
3. स्वस्थ × अस्वस्थ
4. खुश × नाखुश
5. जन्म × मरण
6. बुराई × भलाई

## संज्ञा

1. पूजन की परीक्षा पाँच बजे तक चलनेवाली थी ।
2. सब अंबाजी जा रहे थे ।
3. गुलाब का फूल मुझे पसंद है ।
4. हिमालय ली चढ़ाई बहुत कठिन थी ।
5. आज बिल्ली सारा दूध पी गई ।